

jkt dh; cg|duhdh | LFku dkxMk] rgI hy o ftyk dkxMk /fgekpy
i ns k/ ds Nk= dY; k.k fuf/k; k. dk vds{k.k , oa fujh{k.k ifronu
vof/k 4@11 | s 3@12

Hkkx&, d

1 xr vds{k.k ifronu%

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो मे अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित है, अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु बीध्र आवश्यक कदम उठाये जाएं।

1d% ys[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@02 | s 3@04

- 1 पैरा-6 निर्णीत (एम0बी0 स्टॉक रजिस्टर व कार्यवाही देख ली)

1[kh ys[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@04 | s 3@05

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1 | पैरा-4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-11 (क) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-11 (ख) | अनिर्णीत |

1x% ys[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@07 | s 3@09

- | | | |
|---|------------|----------|
| 1 | पैरा-5 (घ) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-6 | अनिर्णीत |

1?kh ys[kk ijh{kk ifronu vof/k 4@09 | s 3@11

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | पैरा-4 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-5 | निर्णीत (स्वीकृति देख ली गई) |
| 3 | पैरा-6 (क) | निर्णीत (कार्यवाही देख ली गई) |
| 4 | पैरा-6 (ख) | निर्णीत (कार्यवाही देख ली गई) |
| 5 | पैरा-6 (ग) | निर्णीत (₹863/-—रसीद संख्या 20070 दिनांक 7.9.
12 जा करवा दी गई है।) |
| 6 | पैरा-7 | निर्णीत (स्वीकृति देख ली गई) |

7	पैरा—8	निर्णीत (कार्यवाही देख ली गई)
8	पैरा—9	अनिर्णीत
9	पैरा—10	निर्णीत (कार्यवाही देख ली गई)

Hkkx&nks

2 or{ku vd{kk.k%&

अवधि 4/2011 से 3/2012 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं, श्री मुकेष कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.9.12 व 14.9.12 को किया गया मास 1/12 को आय के लिए व 9/11 को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चुना गया। आगामी अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 ys[kk i j h{kk 'kYd%&

लेखा परीक्षा अवधि 4/09 से 3/11 तक का अंकेक्षण षुल्क ₹1200/-आंका गया है। प्राधानाचार्य द्वारा उक्त राषि बैंक ड्राप्ट संख्या 031527 दिनांक 4.10.12 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, षिमला—9 को भेज दी गई।

4 foYkh; fLFkfr%&

₹12/- राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, कांगड़ा के छात्र कल्याण निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:—

o"kl 2011&12

vk;

0; ;

आ०षेष	36084129	व्यय	6547237
आय	9065629	अन्तिम षेष	38602521
कुल योग	45149758	योग	45149758
½[kl j kdm+ogh ds vud kj vfure 'ksk fuEu i dkj Is g%			
हस्तगत राषि			19482
बैंक में जमा राषि			5320513
सवधि निवेष (परिषिष्ट "क")			33262526
जोड़			38602521
½x½ fnukd 31-3-12 dks cd i kl cdka e vfure 'ksk dh fLFkfr fuEu i dkj Is g%			
001 0 cd dk uke o [kkrk 0 j kf' k			
1	स्टेट बैंक आफ पटियाला	4699443.50	
	कांगड़ा 65075086353		
2	स्टेट बैंक आफ पटियाला	81399.00	
	हमीरपुर 65117833891		
3	स्टेट बैंक आफ पटियाला	629865.00	
	सुन्दरनगर 65117611325		
; kx			5410707-50

½kl बैंक पास बुकों के जोड़ व रोकड़ वही के बैंक अन्तिम षेष में अन्तर 5410707.

50-5320513=90194.50

₹901494.50 के अन्तर का मिलान संस्था द्वारा नहीं किया गया जिसे अविलम्ब किया जाना सुनिष्ठित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 **gktjh jftLVjk dks i Lrfr u djus ckj%**

निम्नलिखित हाजरी रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में आय की पूर्ण रूप से जांच नहीं की जा सकी। इन रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत

न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

VIM dk uke vof/k

कम्पयूटर इंजीनियर-III & IV	4/11 से 3/12
इलैक्ट्रॉनिक्स-III&IV	4/11 से 3/12
म्केनिकल-I&II	4/11 से 3/12

6 ykk cd iLrr u dju\$ ckj%&

गाड़ी नं० एचपी-40-1153 की लॉग बुक जांच हेतु आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में गाड़ी द्वारा की गई यात्रा तेल खरीद व खपत की जांच नहीं की जा सकी। लॉग बुक आडिट में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लॉग बुक को आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करवाना भी सुनिष्चित किया जाए।

7 okmpj I ; k 194 ekg 5@11 ₹27993%&

mi jkDr okÅpj }kj k dh xbz [kjhn e fuEufyf[kr vki fr; ka i kbz xb%&

%d% उपरोक्त वाऊचर द्वारा की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाएँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की गई दरों की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

%[k% जिन छात्रों को सामान जारी किया गया उनकी सूची व ट्रैक सूट जूतों के लिए छात्रों से ली गई 50% राषि की वसूली की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

24 ट्रैक सूट @590/-	14160
15 जोड़ी जूते @570/-	8550
4 डिस्कस थ्रो @475/-	1900
10 जैवलिंग थ्रो @175/-	1750

8 okmpj I ; k 853 ekg 9@2011 ₹22121 e tld".kk cntl dkxM%&

mi jkDr [kjhn e fuEufyf[kr vki fr; ka i kbz xb%&

%d% जिन छात्रों को सामान जारी किया गया उनकी सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई।

%[k% मैसर्ज कृष्णा ब्रदर्ज कांगड़ा द्वारा दिनांक 26.9.11 का प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है जिसमें उक्त कुल खरीद ₹21068/- (बिना बैट) पर 12% छूट देना माना गया था परन्तु भुगतान करते समय आवध्यक 12% छूट की कटौती नहीं करके उक्त फर्म को ₹2528/- की

राषि का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली करके छात्र निधि में जमा किया जाए व अनुपालना को आगामी आडिट में दर्शाया जाए।

9 fctyh o njHkk"k jftLVj mi yC/k u djus ckj%&

आडिट के दौरान जांच में बिजली व दूरभाष भुगतान चैक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में बिजली व टेलिफोन के बिलों के समय-2 पर किये गये भुगतान की पुष्टि एवं बिजली एवं दूरभाष व्यय की जांच आडिट द्वारा नहीं की जा सकी। रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित रजिस्टरों को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में आडिट हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

10 y/kq vki fYk fooj .kh%& यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई।

14 I kj%& लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, घिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल0ए0)एच(2)सी(11)(2) 254 / 75-खण्ड-5 दिनांक घिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- i athd'r 1. प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को भेजे।
- 2 निदेषक, तकनीकी विकास, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश-2
- 3 सचिव, तकनीकी विकास, हिमाचल प्रदेश-2
- 4 श्री मुकेष कुमार स्नेही, अमृता द्वारा.....

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, घिमला-171009.